

अंतराष्ट्रीय बाजार

COMEX/NYMEX/ICE (कीमती धातुएं एवं एनर्जी)

कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	एक्सपायरी	बंद भाव
चांदी	जुलाई	29.07.24	29.62
सोना	जून	26.06.24	2325.50
कच्चा तेल	जुलाई	20.06.24	73.25
ब्रेंट कच्चा तेल	अगस्त	30.06.24	77.52
नेचुरल गैस	जून	29.05.24	2.59

करेंसी / कमोडिटी इंडेक्स

करेंसी	वर्तमान भाव
अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया'	83.52
डॉलर इंडेक्स	104.11
यूरो/अमेरिकी डॉलर	1.09
सीआरबी इंडेक्स	337.95

LME (बेस मेटल्स) (डॉलर/टन)

कमोडिटी	नकद	बंद भाव
तांबा	नकद	9945.00
एल्युमिनियम	नकद	2663.50
जिंक	नकद	2935.00
लेड	नकद	2243.00
निकल	नकद	19068.00

SHFE (बेस मेटल्स) (युआन/टन)

कमोडिटी	माह	बंद भाव
तांबा	17 जून 24	81830.00
एल्युमिनियम	17 जून 24	21255.00
जिंक	17 जून 24	24285.00
लेड	17 जून 24	18965.00

घरेलू बाजार

MCX

कमोडिटी	एक्सपायरी	बंद भाव	ट्रेंड**	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड में बदलाव की दर	क्लोजिंग स्टॉप लॉस
बुलडेक्स	26.06.24	18584.00	मंदी	31.05.24	18684.00	18950.00
चांदी	05.07.24	89659.00	मंदी	31.05.24	91570.00	93000.00
सोना	05.06.24	71788.00	मंदी	23.05.24	71577.00	72600.00
कच्चा तेल	18.06.24	6167.00	मंदी	30.05.24	6488.00	6370.00
नेचुरल गैस	25.06.24	219.60	मंदी	24.05.24	213.00	240.00

कमोडिटी	एक्सपायरी	बंद भाव	ट्रेंड**	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड में बदलाव की दर	क्लोजिंग स्टॉप लॉस
तांबा	28.06.24	863.50	मंदी	30.05.24	907.45	890.00
एल्युमिनियम	28.06.24	241.10	तेजी	15.05.24	237.65	240.00
जिंक	28.06.24	261.60	मंदी	31.05.24	265.60	270.00
लेड	28.06.24	190.45	तेजी	28.05.23	195.45	190.00
मेटलडेक्स	19.06.24	17704.00	मंदी	31.05.24	15565.00	18000.00
स्टील लांग	20.06.24	47650.00	तेजी	06.05.24	45490.00	46500.00

**यह इंट्रा-डे कारोबार के लिए नहीं है। रुझानों का विश्लेषण बंद भाव के आधार पर करना चाहिए।
04.06.2024 को सभी बंद भाव

सर्पा आउटलुक

सोने की कीमतों को 71500 पर सपोर्ट और 72000 पर रेजिस्टेंस रह सकता है। चांदी की कीमतों को 90100 के स्तर पर रेजिस्टेंस के साथ 89200 रू पर सपोर्ट रह सकता है। कीमतों में नरमी का रूझान रह सकता है। आज डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट हुई, जबकि निवेशकों का ध्यान अमेरिकी गैर-कृषि पेट्रोल रिपोर्ट पर था, जो इस सप्ताह के अंत में फेडरल रिजर्व की दर-कटौती योजनाओं के बारे में अधिक संकेत दे सकता है। अप्रैल में अमेरिका में नौकरी के अवसर उम्मीद से अधिक कम हो गए, क्योंकि श्रम बाजार की स्थिति इस तरह से कमजोर हो गई है कि इससे फेड को मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा कि वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की शुद्ध खरीद अप्रैल में बढ़कर 33 मीट्रिक टन हो गई, जो मार्च में संशोधित 3 टन की शुद्ध खरीद से अधिक है और सोने की उच्च कीमतों के बावजूद इस क्षेत्र से मजबूत मांग जारी रहने का संकेत है। सीमा शुल्क आंकड़ों से पता चलता है कि भारत और तुर्की को अधिक आपूर्ति के कारण अप्रैल में स्विस् सोने के निर्यात में मार्च से गिरावट हुई, जबकि चीन और हांगकांग को कम डिलीवरी ने इसकी भरपाई कर दी।

बेस मेटल आउटलुक

बेस मेटल की कीमतें मिले-जुले रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं। तांबे की कीमतें 858-868 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। आज बेस मेटल की कीमतों में गिरावट हुई, क्योंकि सबसे अधिक खपत करने वाले चीन में मांग कम रही और अमेरिका से उम्मीद से कम मैनुफैक्चरिंग आंकड़ों के कारण कीमतों पर दबाव पड़ा। चीन में तांबे के भंडार में अभी तक मौसमी गिरावट शुरू नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि तांबा बाजार में कुछ व्यापारियों की अपेक्षा से कहीं अधिक आपूर्ति है। अमेरिका में कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व द्वारा पहले की दरों में कटौती के मामले को बढ़ावा दिया है, जिससे डॉलर को मार्च के मध्य से अपने सबसे निचले स्तर से उबरने में मदद मिली है। आवास बाजार को स्थिर करने पर चीन की नई नीति पर जोर, ऊर्जा संक्रमण प्रयासों के कारण धातुओं की मांग को बढ़ावा मिल सकता है। जिनक में नरमी का रूझान रह सकता है और कीमतों को 259 पर सपोर्ट और 263 पर रेजिस्टेंस रह सकता है। लोड की कीमतें 189-192 के दायरे में साइडवेज कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें तेजी के रूझान के साथ 239-243 के दायरे में साइडवेज कारोबार कर सकती हैं।

एनर्जी आउटलुक

कच्चे तेल की कीमतें नरमी रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं और कीमतों को 6120-6230 के दायरे में कारोबार करने की संभावना आज एशियाई कारोबार के शुरुआती दौर में तेल की कीमतों में पिछले सत्र की तुलना में थोड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि औद्योगिक रिपोर्ट में अमेरिकी कच्चे तेल और ईंधन के भंडार में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे मांग में वृद्धि को लेकर चिंताएँ बढ़ गईं। एपीआई आंकड़ों से पता चलता है कि 31 मई को समाप्त सप्ताह में कच्चे तेल के भंडार में 4 मिलियन बैरल से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि रॉयटर्स सर्वेक्षण में विश्लेषकों ने 2.3 मिलियन बैरल की गिरावट का अनुमान लगाया था। बढ़ता हुआ भंडार आमतौर पर मांग से अधिक आपूर्ति का संकेत होता है। गैसोलीन के स्टॉक में भी 4 मिलियन बैरल से अधिक की वृद्धि हुई, जो विश्लेषकों द्वारा अपेक्षित 2 मिलियन बैरल की वृद्धि से कहीं अधिक वृद्धि थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों और सहयोगियों के संगठन (ओपेक+) ने सप्ताहांत की बैठक में फैसला किया कि वह वर्ष के अंत तक 3.6 मिलियन बैरल प्रति दिन उत्पादन में कटौती बनाए रखेगा। लेकिन कार्टेल सितंबर 2024 के अंत से अक्टूबर 2025 तक 2.2 मिलियन बैरल/दिन की कटौती को कम करना शुरू कर देगा। नेचुरल गैस की कीमतें 215-224 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

प्रमुख आर्थिक आंकड़ें

भारतीय समयानुसार	आर्थिक आंकड़ें	महत्व	संभावित	पिछला	प्रभावित कमोडिटी	प्रभाव
17:45	एडीपी गैर कृषि रोजगार में बदलाव (मई)	अधिक	173K	192K	मेटल एवं एनर्जी	अनुकूल
19:15	अमेरिकी एस&एंडपी ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई (मई)	अधिक	54.4	51.3	मेटल एवं एनर्जी	प्रतिकूल
19:15	अमेरिकी सर्विस पीएमआई (मई)	अधिक	54.8	51.3	मेटल एवं एनर्जी	प्रतिकूल
19:30	अमेरिकी आईएसएम नॉन-मैनुफैक्चरिंग पीएमआई (मई)	अधिक	51.0	49.4	मेटल एवं एनर्जी	प्रतिकूल
20:00	ईआईए कच्चे तेल का भंडार	अधिक		-4.156M	कच्चा तेल	

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रॉकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएनई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एसएसएससी कॉमिटेड नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहाय्यी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिस्क एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिस्क एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीमेंट द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निषेधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिस्क एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिस्क एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

विसर्गः यह रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटी को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटी के किसी भी प्रकार के सौतों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।